

सेवा में,

सीबीएसई से संबद्ध स्कूलों के प्रमुख
(सीबीएसई वेबसाइट के माध्यम से)

विषय : कक्षा 10 और 12- 2022 के लिए प्रायोगिक परीक्षाओं/परियोजना/आंतरिक आकलन के संबंध में अंक अपलोड करने की अंतिम तिथि को बढ़ाने संबंधी

महोदया/महोदय ,

यह दिनांक 24.02.2022 के परिपत्र संख्या सीबीएसई/समन्वय/प्रैक्टिकल/2021 के क्रम में है जिसके द्वारा स्कूलों को 2.03.2022 से कक्षा 10 और 12 के लिए प्रैक्टिकल परीक्षाओं/प्रोजेक्ट/आंतरिक आकलन का संचालन करने के लिए निर्देशित किया गया था। अंतिम तिथि संबंधित कक्षाओं की अंतिम परीक्षा तिथि से 10 दिन पहले होनी थी।

तदनुसार, कक्षा 10 के संबंध में प्रैक्टिकल परीक्षाओं/परियोजना/आंतरिक आकलन अंक अपलोड करने की सुविधा को निष्क्रिय कर दिया गया है। अब विद्यालयों द्वारा प्रस्तुत किए गए आंकड़ों के अवलोकन पर यह देखा गया है कि कक्षा 10 के टर्म-I के संबंध में 39 विद्यालयों के और टर्म-II के लिए 537 विद्यालयों के प्रैक्टिकल परीक्षाओं/प्रोजेक्ट/आंतरिक आकलन अंक अभी भी लंबित हैं। इसी प्रकार कक्षा 12 के संबंध में भी टर्म-I के लिए 141 विद्यालयों के तथा टर्म-II के लिए 185 विद्यालयों के प्रैक्टिकल परीक्षा/परियोजना/आंतरिक आकलन के अंक भी लंबित हैं।

स्कूलों की आवश्यकता और अनुरोधों को देखते हुए, प्रैक्टिकल अंक अपलोड करने की सुविधा नीचे दिए गए विवरण के अनुसार बढ़ाई जा रही है :

	समय और तिथि जब तक प्रैक्टिकल परीक्षाओं/प्रोजेक्ट/आंतरिक आकलन के अंक अपलोड करने की सुविधा उपलब्ध रहेगी	
	टर्म - I	टर्म - II
कक्षा - X	27.05.2022 पूर्वाह्न 00:01 बजे से 31.05.2022 अपराह्न 11:59 बजे	27.05.2022 पूर्वाह्न 00:01 बजे से 31.05.2022 अपराह्न 11:59 बजे
कक्षा - XII	05.06.2022 अपराह्न 11:59 बजे तक	05.06.2022 अपराह्न 11:59 बजे तक

अंक अपलोड करने के लिए (समय) और आगे नहीं बढ़ाया जाएगा।

सभी स्कूलों से एक बार पुनः अनुरोध है कि अंतिम तिथि तक प्रतीक्षा न करें और संबंधित स्कूल अंक अपलोड करने के कार्य को पूरा कर लें यदि यह अभी भी लंबित हो।

भवदीय

हस्ता./-

(डॉ. संयम भारद्वाज)
परीक्षा नियंत्रक

प्रति: वेब एडमिन को सीबीएसई वेबसाइट पर अपलोड करने के अनुरोध के साथ